



सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 2017/भाद्र 11, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 240
No. 333] DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 2017/BHADRA 11, 1939 [N.C.T.D. No. 240

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

i ; kbj .k] ou , oa ol; tho foHkx

vf/kl ipuk

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2017

Qk- I . vkj- 113@टी. ओ. (एस.)/टी. सी.-फेलिंग/डी.@2017-2018@3975-83.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सांसद फ्लैट्स का पुनर्विकास हेतु 36 डुप्लेक्स एम्.पी. हाउस के निर्माण मौजूदा 1 से 64 फ्लैटों नॉर्थ एवेन्यू (फेज-1), नई दिल्ली में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.175 हैक्टेयर लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हेक्ट0)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	स्थानान्तरित किए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
सांसद फ्लैट्स का पुनर्विकास हेतु 36 डुप्लेक्स एम्.पी. हाउस के निर्माण मौजूदा 1 से 64 फ्लैटों नॉर्थ एवेन्यू (फेज-1), नई दिल्ली ।	2.175 (लगभग)	85	07	920 (उपभोगी संस्था द्वारा)
	clj ; kx	85	07	920

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

- (क) आवेदक का सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 52,44,000/-रुपये (बावन लाख चवालीस हजार रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	उपभोगी संस्था (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) द्वारा 100% (920) पौधों का राजघाट ए-01, नई दिल्ली की भूमि पर किया जायेगा।	920	रु- 52,44,000/-	उप-वन संरक्षक (दक्षिणी)/वन अधिकारी

- (ख) 920 पौधों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जायेगा तथा उनका सात वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा तथा उनका सफलतापूर्वक स्थापना तक निगरानी की जाएगी:-

- (i) देशी प्रजातियों के 920 पौधों का उपभोगी संस्था द्वारा राजघाट ए-01 नई दिल्ली की भूमि पर किया जायेगा। जिसके भू-निर्देशांक 28°38'58" N, 77°14'57" E.
- (ग) 92 पेड़ों के काटे/प्रत्यारोपण किए जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी की नीलामी उपभोगी संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि सरकार को राजस्व के रूप में उपभोगी संस्था द्वारा जमा की जाएगी।
- (घ) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पेड़ों की ऊपरी शाखाएं (लोप्स एंड टॉप्स) की प्रजातियों की जलाऊ लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त जलाऊ लकड़ी मुफ्त में दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए।
- (ङ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (दक्षिणी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (च) क्षेत्र में अन्य 86 वृक्षों को किसी भी तरह से गिरने या क्षति नहीं होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
केशव चन्द्र, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 1st September, 2017

No. R. 113/TO(S)/TC-Felling/2017-18/3975-83.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of total 2.175 ha. (approx) as detailed below for redevelopment of MP flats by construction of 36 Duplex MPs House in North Avenue (Phase-I) in existing 1 to 64 Nos flat, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location.	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed.	No. of trees required to be transplant.	Compensatory plantation required (No. of trees).
Redevelopment of MP flats by construction of 36 Duplex MPs House in North Avenue (Phase-I) in existing 1 to 64 Nos. flat, New Delhi.	2.175 (approx)	85	07	920 (by User Agency)
Total		85	07	920

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

- (a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 52,44,000/- (Rupees Fifty Two Lakhs Forty Four Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows:

Project No.	Location of Compensatory Afforestation plantation	Number of saplings to be planted (Number of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
1.	100 % (920) Nos. by the User Agency i.e. CPWD at Rajghat A-1, New Delhi.	920	52,44,000 /-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer

- a) The compensatory plantation as shown below will be raised and maintained for Seven years and monitored till its successful establishment:—
- (i) 920 saplings of indigenous species will be done by User Agency i.e CPWD at Rajghat, A-1, New Delhi with geo-coordinates 28°38'58" N, 77°14'57" E.
- b) The timber obtained from felling/transplanting of 92 trees shall be auctioned by the user agency and deposit the proceeds as revenue to the government.
- c) The lops and tops obtained on removal of firewood species of trees shall be handed over by the Central Public Works Department (CPWD) to the officials concerned of MCD for use in public crematoria of Delhi as firewood, free of cost.
- d) Before shifting of wood if any, from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (South)
- e) The other 86 trees in the area will not be harmed in any manner.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
KESHAV CHANDRA, Secy. (Environment & Forests)